

प्रेस विज्ञप्ति
जनपद बस्ती

दिनांक:-24.10.2020

एक लाख रूपये का ईनामी बदमाश गिरफ्तार फैक्ट्री निर्मित शस्त्र व चोरी की मोटरसाईकिल बरामद ।

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री हेमराज मीना के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री रवीन्द्र कुमार सिंह के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी हरैया श्री शेषमणि उपाध्याय के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक छावनी, प्रभारी एसओजी एवं थानाध्यक्ष हरैया व सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही के दौरान दिनांक:- 23.10.2020 को ग्राम विशेषरगंज हरैया मार्ग पर ग्राम नदार्थे के पास से अभियुक्त (1) कमलेश मांझी पुत्र सूरज पाल मांझी निवासी कौशल्याघाट थाना रामजन्मभूमि जनपद अयोध्या को समय 18:40 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसकी गिरफ्तारी पर एक लाख रूपये का पुरस्कार घोषित था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

(1) कमलेश मांझी पुत्र सूरज पाल मांझी निवासी कौशल्याघाट थाना रामजन्मभूमि जनपद अयोध्या ।

बरामदगी का विवरण:-

- (1) एक अदद DBBL गन फैक्ट्री निर्मित न0 65467-2005 ।
- (2) एक अदद DBBL गन फैक्ट्री निर्मित न0 51832-11 ।
- (3) एक अदद रिवाल्वर देशी .32 बोर ।
- (4) पाँच अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर ।
- (5) तीन अदद कारतूस जिन्दा .32 बोर।
- (6) एक अदद मोटरसाईकिल सुपर स्प्लेंडर बिना नम्बर की ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 23.10.2020 को संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनो की चेकिंग की कार्यवाही थाना हरैया एवं छावनी पुलिस एवं एसओजी व सर्विलांस टीम द्वारा की जा रही थी । उक्त के क्रम में प्राप्त सूचना के आधार पर विशेषरगंज हरैया मार्ग पर ग्राम नदार्थे के पास गाड़ाबन्दी/ चेकिंग के दौरान अभियुक्त कमलेश मांझी पुत्र सूरज पाल उपरोक्त की गिरफ्तारी एक अदद देशी रिवाल्वर मय तीन कारतूस जिन्दा .32 बोर व एक अदद मोटरसाईकिल बिना नम्बर की चोरी की के साथ की गई । पूछताछ मे पकडे गये अभियुक्त द्वारा

मोटरसाईकिल को अयोध्या रेलवे स्टेशन से चोरी करना बताया । उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना हरैया पर मु0अ0स0 270/2020 व 271/2020 धारा 411/413/414 IPC व 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया । यह अभियुक्त दिनांक 30.04.2016 को जिला अस्पताल बस्ती से फरार था जिसकी गिरफ्तारी पर एक लाख रूपये का पुरस्कार घोषित था । अभियुक्त से थाना हवालात हरैया पर गहन पूछताछ पुलिस टीम द्वारा की गयी । पूछताछ के दौरान अभियुक्त कमलेश मांझी पुत्र सूरज पाल ने यह भी बताया कि यहाँ से फरार होने के बाद वह लुक-छिप कर रहता था। वर्ष 2016 में ही अगस्त माह में रामकिशन निषाद व अभिषेक तिवारी जो गोसाईगंज अयोध्या के रहने वाले है, अपने दो अन्य साथी जिनका नाम मैं नहीं जानता के साथ मुझसे कौशल्याघाट के पास मिले तथा मुझे दो लाइसेंसी बन्दूक रखने के लिये दिये और कहे कि मैं बाद में आकर ले लूंगा । उक्त बन्दूक अब तक लेने के लिये नहीं आये । दोनो बन्दूक मेरे घर पर है । पूछताछ के आधार पर दिनांक 24.10.2020 को रात्रि 01:10 बजे अभियुक्त कमलेश मांझी उपरोक्त की निशानदेही पर उसके घर से दो DBBL गन मय पांच कारतूस बरामद किया गया है । जाँच एवं पूछताछ से पाया गया कि उपरोक्त दोनों फैक्ट्री निर्मित बन्दूक दिनांक 26.08.2016 को टोल प्लाजा रौनाही जनपद अयोध्या के कैश वैन से लूट की घटना मे गार्ड से लूटी गयी है । जिसे अभिषेक तिवारी व रवि किशन निषाद आदि अपने अन्य साथियों के साथ लूटी थी। इस प्रकरण में थाना कैंट जनपद अयोध्या पर मु0अ0स0 273/2016 धारा 396/412 IPC पंजीकृत है । अभियुक्त कमलेश मांझी के निशानदेही पर की गयी बरामदगी के आधार पर थाना हरैया पर मु0अ0स0 272/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

- (1) मु0अ0सं0 214/2008 धारा 394/506 भा0द0स0 थाना कैंट अयोध्या ।
- (2) मु0अ0सं0 317/2016 धारा 392 भा0द0स0 थाना परसुरामपुर जिला बस्ती ।
- (3) मु0अ0सं0 201/2016 धारा 386/323/504/506 भा0द0स0 थाना कोतवाली अयोध्या ।
- (4) मु0अ0सं0 455/2016 धारा 386 भा0द0स0 थाना छावनी बस्ती ।
- (5) मु0अ0सं0 456/2016 धारा 333/307/353/504/506 भा0द0स0 व 7 CLA Act , 3/7/25/आर्म्स एक्ट थाना छावनी बस्ती ।
- (6) मु0अ0सं0 886/2016 धारा 223/224 भा0द0स0 थाना कोतवाली बस्ती ।
- (7) मु0अ0सं0 735/2016 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना छावनी बस्ती ।
- (8) मु0अ0सं0 27/2017 धारा 174A IPC थाना छावनी बस्ती ।
- (9) मु0अ0सं0 3656/2016 धारा 174A IPC थाना कोतवाली बस्ती ।
- (10) मु0अ0सं0 270/2020 धारा 411/413/414 भा0द0स0 थाना हरैया बस्ती ।

(11) मु0अ0सं0 271/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हरैया जनपद बस्ती |

(12) मु0अ0सं0 272/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हरैया जनपद बस्ती |

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

(1) श्री सौदागर राय प्रभारी निरीक्षक छावनी |

(2) श्री राजेश कुमार मिश्रा प्रभारी एसओजी |

(3) श्री सर्वेश राय थानाध्यक्ष हरैया |

(4) श्री जितेन्द्र सिंह प्रभारी सर्विलांस सेल |

(5) व0उ0नि0 श्याम मोहन तिवारी थाना छावनी |

(6) उ0नि0 राहुल गुप्ता, उ0नि0 सुरेश यादव, उ0नि0 रामाप्रसाद यादव, उ0नि0 अंशुमान सिंह |

(7) हे0का0 अनिल कुमार, का0 जितेन्द्र यादव , का0 जनार्दन प्रजापति, का0 जयहिन्द यादव, का0 पंकज यादव

(8) का0 शिवानन्द सिंह, का0 अमरनाथ, का0 अजय कुमार यादव, का0 आदित्य पाण्डेय, का0 रामसुरेश, का0 बुद्धेश , का0 दिलीप कुमार |